



HAMIRPUR POLICE



तहसील मौदहा

दिनांक-30.07.2022

पीस कमिटी की मीटिंग

आज दिनांक-30.07.2022 को आगामी मोहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी हमीरपुर एवं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा तहसील मौदहा मे क्षेत्र अंतर्गत सर्वसमुदाय के धर्मगुरुओं, सम्भ्रांत/गणमान्य व्यक्तियों,कमेटी के सदस्यों/ डिजिटल वालंटियर के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रतिभाग करने वाले लोगों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया व उनसे सुझाव भी मांगे गये। उपस्थित लोगों से त्यौहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की गई साथ ही सड़क बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न करने हेतु हिदायत दिया गया। ताजियादारों से किसी भी नए ताजियामार्ग के निर्माण न करने व किसी नई परंपरा से बचने की अपील की गई। साथ ही ताजिया मार्ग में बिजली के तारों की व्यवस्था देखने व मार्ग की साफ-सफाई के संबंध में संबंधित को निर्देशित किया गया। सरकार द्वारा जारी किये गये गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग आपस में मिलजुल कर आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ अपना अपना त्योहार मनाएं। असामाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तो तुरंत सम्बंधित थाना पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक व अफवाह पोस्ट करेगा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मौदहा, क्षेत्राधिकारी मौदहा व अन्य संबंधित मौजूद रहे।

